



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 2—सितम्बर 8, 2006 (भाद्रपद 11, 1928)

No. 35] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 2—SEPTEMBER 8, 2006 (BHADRA 11, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I--खण्ड-1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	पृष्ठ सं. 7-11	भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	पृष्ठ सं. *
भाग I--खण्ड-2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	809	भाग II--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग I--खण्ड-3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	9	भाग III--खण्ड-1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	2165
भाग I--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1153	भाग III--खण्ड-2--पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	457
भाग II--खण्ड-1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	भाग III--खण्ड-3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग II--खण्ड-1क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	भाग III--खण्ड-4--विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	6691
भाग II--खण्ड-2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*	भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	583
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*	भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण	*
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं।	*		

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

Page No.		Page No.	
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	711	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	809	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	9	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	2165
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1153	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	457
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	6691
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	583
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*		

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 18 जुलाई 2006

संकल्प

सं. 11011-1/2006-रा.भा.ए.--महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा अपने मंत्रालय की पृथक हिंदी सलाहकार समिति का गठन करने का निर्णय लिए जाने के परिणामस्वरूप इस मंत्रालय के दिनांक 25 फरवरी, 2005 के संकल्प संख्या 11011-2002-रा.भा.ए. में आंशिक संशोधन करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग, प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति में से महिला एवं बाल विकास विभाग को हटाने का निर्णय लिया गया है। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी के अनुमोदन से अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय (माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग एवं प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग) की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन निम्नानुसार होगा :--

I. गठन

मानव संसाधन विकास मंत्री	अध्यक्ष
मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री (माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा)	उपाध्यक्ष
मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री (प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता)	सदस्य

II. गैर सरकारी सदस्य

(लोक सभा के दो सदस्य)

- | | |
|--|-------|
| 1. श्री मोनी कुमार सुब्बा
1, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली
स्थायी पता : हरमाती, उत्तरी लखीमपुर, असम | सदस्य |
| 2. श्री मोहनभाई देलकर
5, जी.आर.जी. रोड, नई दिल्ली-110 001
स्थायी पता : कटिज हास्पिटल के सामने, सामजीभाई देलकर रोड,
सिलवासा-396230 (दादरा एवं नगर हवेली) | सदस्य |

(राज्य सभा के दो सदस्य)

- | | |
|---|-------|
| 3. डा. फगुनी राम
29, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली
स्थायी पता : 247, एमआईजी, हनुमान नगर
पटना-800 020 (बिहार) | सदस्य |
| 4. श्री विक्रम वर्मा
5, तुगलक लेन, नई दिल्ली-110 001
स्थायी पता : बी-18, स्वामी दयानन्द नगर,
74 बंगला, भोपाल | सदस्य |

संसदीय राजभाषा समिति से दो संसद सदस्य

5. प्रो० रामदेव भंडारी
संसद सदस्य(राज्य सभा)
24, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली-110011
स्थायी पता: ग्राम/पो०-झंझरपुर, जिला-मधुबनी(बिहार)847 404 सदस्य
6. डा० राजेश कुमार मिश्र
संसद सदस्य(लोक सभा)
33, मीनाबाग, नई दिल्ली
स्थायी पता: एस-8/346, खजूरी कालोनी, वाराणसी(उत्तर प्रदेश) सदस्य

राजभाषा विभाग द्वारा नामित सदस्य

7. डॉ० एन० चन्द्रशेखरन नायर
श्रनिकेतन, लक्ष्मी नगर,
पट्टम पालस पोस्ट, तिरुवनन्तपुरम-695 004 सदस्य
8. डॉ० विवेकी राय
डॉ० विवेकी राय मार्ग, बड़ीबाग,
गाजीपुर, उत्तर प्रदेश-233 001 सदस्य
9. हकीम, अनीस-उर-रहमान
ईन्सार चैम्बर, 1516-18,
डेविड स्ट्रीट, प्रथम तल, पटौदी हाउस,
दरियागंज, नई दिल्ली-110 002 सदस्य

अन्य गैर सरकारी सदस्य(मंत्रालय द्वारा नामित)

10. डॉ० सुरेश महरोत्रा, वरिष्ठ पत्रकार सदस्य
11. डॉ०(श्रीमती) सरोज बजाज
302 'इन्द्रलोक', बंजारा हिल्स,
हैदराबाद(आन्ध्र प्रदेश)-500 034 सदस्य
12. डॉ० इकबाल अहमद
असमरी मंजिल, गांव/पोस्ट-समरियावांन,
बस्ती-272126 (उत्तर प्रदेश) सदस्य
13. श्री अजय टण्डन,
टण्डन बगीचा, दमोह (मध्य प्रदेश) सदस्य

स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि

14. प्रतिनिधि, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, नई दिल्ली सदस्य
15. प्रतिनिधि, केरल हिन्दी प्रचार सभा, त्रिवेन्द्रम सदस्य

सरकारी सदस्य(पदेन)

16.	सचिव, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग	सदस्य
17.	सचिव, प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग	सदस्य
18.	सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय	सदस्य
19.	संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय	सदस्य
20.	संयुक्त सचिव(भाषाएं), माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग	सदस्य
21.	संयुक्त सचिव(प्रशासन), माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग	सदस्य
22.	निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय	सदस्य
23.	निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय	सदस्य
24.	अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	सदस्य
25.	आयुक्त, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान	सदस्य
26.	अध्यक्ष, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग	सदस्य
27.	निदेशक, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान	सदस्य
28.	कुलपति, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय	सदस्य
29.	आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन	सदस्य
30.	आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति	सदस्य
31.	अध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	सदस्य
32.	अध्यक्ष, असिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्	सदस्य
33.	निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्	सदस्य
34.	निदेशक, राष्ट्रीय बाल भवन	सदस्य
35.	निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान	सदस्य
36.	निदेशक(राजभाषा), माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग	सदस्य-सचिव

III. समिति का कार्य

समिति, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग, प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के काम-काज में राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन और इससे सम्बन्धित मामलों पर परामर्श देगी।

IV. समिति का कार्यकाल

समिति के सदस्यों का कार्यकाल सामान्य रूप से समिति के गठन की तारीख अर्थात् दिनांक 25.2.2005 को जारी संकल्प संख्या 11011-1/2002-रा0भा0ए0 की तारीख से निम्नलिखित बातों के अधीन तीन वर्ष तक रहेगा:-

- (क) जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।
- (ख) समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक समिति के सदस्य रहेंगे।
- (ग) यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने के कारण अथवा समिति की सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण स्थान खाली होता है तो उस स्थान पर नियुक्त सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य रहेगा।

V. सामान्य

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा किन्तु समिति अपनी बैठक आवश्यकता पड़ने पर दिल्ली से बाहर किसी अन्य स्थान पर भी कर सकती है।

VI. यात्रा तथा अन्य भत्ते

समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-11/20034/4/86-रा0भा0(क-2) में निहित दिशा-निर्देश के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक और भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभागों को भेजी जाए।

एस. सी. खुट्टिआ
संयुक्त सचिव

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 अगस्त 2006

सं. एफ. 9-16/2006-यू.3 (ऐ)--

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली को उपर्युक्त अधिनियम के उद्देश्य हेतु एतद्द्वारा सम विश्वविद्यालय घोषित करती है।

सुनील कुमार
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF SECONDARY & HIGHER EDUCATION)

New Delhi-110 001, the 18th July 2006

RESOLUTION

No.11011-1/2006-O.L.U. : Consequent upon the decision taken by the Ministry of Women and Child Development to constitute their separate Hindi Salahakar Samiti, in partial modification of this Ministry's Resolution No. F.11011-1/2002-O.L.U. dated 25th February, 2005, it has been decided to exclude Department of Women and Child Development from the Joint Hindi Salahakar Samiti of Ministry of Human Resource Development's Department of Secondary and Higher Education, Department of Elementary Education and Literacy and Department of Women and Child Development. With the approval of the Hon'ble Minister of Human Resource Development, the Re-constitution of the Hindi Salahakar Samiti of the Ministry of Human Resource Development (Department of Secondary and Higher Education, Department of Elementary Education and Literacy) will now be as under:-

1. COMPOSITION

Minister for Human Resource Development	Chairman
Minister of State for Human Resource Development (Department of Secondary & Higher Education)	Vice-chairman
Minister of State for Human Resource Development (Department of Elementary Education and Literacy)	Member

**2. NON OFFICIAL MEMBERS
(TWO MEMBERS OF LOK SABHA)**

- | | |
|---|--------|
| 1. Shri. Moni Kumar Subba
1, Talkatora Road, New Delhi
<u>Permanent Address:</u> Harmati, North Lakhimpur, Assam | Member |
| 2. Shri. Mohanbhai Delkar
5, G.R.G. Road, New Delhi-110 001
<u>Permanent Address:</u> Opp. Cottage Hospital, Samjibhai Delkar Road,
Silvassa-396 230(Dadra & Nagar Haveli) | Member |

(TWO MEMBERS OF RAJYA SABHA)

- | | |
|---|--------|
| 3. Dr. Faguni Ram
29, Ferozshah Road, New Delhi.
<u>Permanent Address:</u> 247, MIG Hanuman Nagar,
Patna-800 020(Bihar) | Member |
| 4. Shri Vikram Verma
5, Tughlak Lane, New Delhi-110 011
<u>Permanent Address:</u> B-18, Swami Dayanand Nagar,
74 Bungalows, Bhopal | Member |

TWO M.Ps FROM THE COMMITTEE OF PARLIAMENT ON OFFICIAL LANGUAGE

5. Prof. Ram Deo Bhandari Member
Member of Parliament (Rajya Sabha)
24, South Avenue, New Delhi-110 011.

Permanent Address

Vill. & Post Jhanjharpur, Distt. Madhubani, Bihar-847 404

6. Dr. Rajesh Kumar Mishra Member
Member of Parliament (Lok Sabha)
33, Meena Bagh, New Delhi

Permanent Address

S-8/346, Khajoori Colony, Varanasi (Uttar Pradesh)

MEMBERS NOMINATED BY THE DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

7. Dr. N.Chandrashekhra Nayar Member
Shrniketan, Laxminagar,
Pattam Palas Post,
Thiruvananthapuram-695 004
8. Dr. Viveki Rai Member
Dr. Viveki Rai Marg, Badibagh,
Ghazipur, Uttar Pradesh-233 001
9. Hakim. Anis-Ur-Rehman Member
Insar Chambers, 1516-18,
David Street, 1st Floor,
Pataudi House, Darya Ganj,
New Delhi-110 002

OTHER NON OFFICIAL MEMBERS : (Nominated by the Ministry)

10. Dr. Suresh Mehrotra, Member
E-19, 45 Bungalows,
Bhopal(MP)
11. Dr. (Smt.) Saroj Bajaj, Member
302, 'Indralok', Road No.1,
Banjara Hills,
Hyderabad(A.P.)-500 034
12. Dr. Iqbal Ahmed, Member
Asgari Manzil, Vill. & PO Semeriyawam
Distt. Basti - 272126(Uttar Pradesh)
13. Shri Ajay Tandon, Member
Tandon Bagicha, Damoh (M.P.)

REPRESENTATIVES OF THE VOLUNTARY ORGANISATION

14. Representative, Kendriya Sachivalaya Hindi Parisad, New Delhi. Member
15. Representative, Keral Hindi Prachar Sabha, Thiruvananthapuram Member

OFFICIAL MEMBERS(EX-OFFICIAL)

16.	Secretary, Department of Secondary & Higher Education	Member
17.	Secretary, Department of Elementary Education & Literacy	Member
18.	Secretary, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs	Member
19.	Joint Secretary, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs	Member
20.	Joint Secretary (Languages), Department of Secondary & Higher Education	Member
21.	Joint Secretary (Administration), Department of Secondary & Higher Education	Member
22.	Director, Directorate of Adult Education	Member
23.	Director, Central Hindi Directorate	Member
24.	Chairman, University Grants Commission	Member
25.	Commissioner, National Institute of Open Schooling	Member
26.	Chairman, Commission for Scientific and Technical Terminology	Member
27.	Director, Central Institute of Indian Languages	Member
28.	Vice-Chancellor, Mahatma Gandhi International Hindi University	Member
29.	Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan	Member
30.	Commissioner, Navodaya Vidyalaya Samiti	Member
31.	Chairman, Central Board of Secondary Education	Member
32.	Chairman, All India Council for Technical Education	Member
33.	Director, National Council for Educational Research and Training	Member
34.	Director, National Bal Bhawan	Member
35.	Director, Kendriya Hindi Sansthan	Member
36.	Director (Official Languages), Department of Secondary & Higher Education	Member-Secretary

III. FUNCTIONS OF THE SAMITI

The functions of this samiti will be to advise the Department of Secondary and Higher Education, Department of Elementary Education and Literacy and the Department of Women and Child Development for the effective implementation of official Language and its related matters.

IV. TENURE OF THE SAMITI

The Tenure of the Samiti shall be three years from the date of its composition i.e. from the date of issue of resolution No.11011-1/2002-OLU dated 25th February, 2005, provided that :-

- a) a member, who is Member of Parliament ceases to be member of the Samiti as soon as he ceases to be a Member of Parliament.
- b) Ex-officio Members of the Samiti shall continue as members as long as they hold the office by virtue of which they are members of the Samiti.
- c) If a vacancy arises on the samiti due to resignation or death of a Member, the Member appointed in that capacity shall hold the office for residual term.

V. GENERAL

Headquarter of the Samiti will be in New Delhi, but samiti can hold its meeting in any other place other than Delhi, if necessary.

VI. T.A. AND OTHER ALLOWANCES

The non official members will be paid TA/DA for attending the meeting of the committee as per Guidelines and at the rates and rules as revised prescribed by Govt. of India from time to time vide O.M. No.11/ 20034/4/86-OL(A.2) dated 22nd January, 1987 of the Department of Official Language.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all members of the Committee, all State Governments and U.T. administration, P.M. Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary affairs, Lok Sabha Secretariat, President Secretariat, Comptroller & Auditor General of India, and all Ministries and Departments of the Government of India.

S. C. KHUNTIA
Jt. Secy.

Department of Higher Education

New Delhi, the 11th August 2006

No. F.9-16/2006-U. 3 (A).—

In exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956, the Central Government, on the advice of the University Grants Commission, hereby declare the National Institute of Educational Planning and Administration (NIEPA), New Delhi as Deemed to be University for the purpose of the aforesaid Act.

SUNIL KUMAR
Jt. Secy.

प्रबन्धक, अ भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2006
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2006